

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 अप्रैल 2016—चैत्र 22, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2016 (चैत्र 22, 1938)

क्र. 12014-वि.स.-विधान-2016.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 11 अप्रैल, 2016 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा, इस राज्य की विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ.

भोपाल :
दिनांक 11 अप्रैल 2016

राम नरेश यादव
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.”

ए. पी. सिंह
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.